



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 494]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 1981/कार्तिक 11, 1903

No. 494]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 1981/KARTIKA 11, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1981

का० आ० 784 (अ) -- 18 कक आई०डी० आर० ए०/81--केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 695 (अ)/18 कक/आई० डी० आर० ए०/72 तारीख 3 नवम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रबन्ध ग्रहण आदेश कहा गया है) द्वारा भारत के औद्योगिक पुनर्गठन निगम लिमिटेड, कलकत्ता को, सीसर्स गणेश फनोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड दिल्ली (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का 2 नवम्बर, 1977 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था :

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय हाने पर कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है भारत सरकार के औद्योगिक विभाग के आदेश सं० का० आ० 742 (अ) तारीख 1 नवम्बर, 1977 का० आ० 630 (अ),

902 GI/81

तारीख 2 नवम्बर, 1977 का० आ० 873 (अ) तारीख 1 नवम्बर, 1980 और का० आ० 331 (अ) तारीख 2 मई, 1981 द्वारा प्रबन्ध ग्रहण आदेश की अवधि 2 नवम्बर, 1981 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी बढ़ा दी थी,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि प्रबन्ध ग्रहण आदेश 2 मई, 1982 तक की अवधि के लिए जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, प्रभावी बना रहे,

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 कक की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेश करती है कि प्रबन्ध ग्रहण आदेश 2 मई, 1982 तक की अवधि के लिए जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, प्रभावी बना रहेगा और यह भी निवेश करती है कि उक्त उपक्रम का प्रबन्ध इस आदेश के पैरा 2 में निर्दिष्ट प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्मासिद्ध निवन्धनों और शर्तों पर, किया जाएगा, अर्थात् --

- (1) प्रबन्ध बोर्ड समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेशों का पालन करेगा

(1369)

- (2) बोर्ड 2 मई, 1982 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, प्रदत्त रहेगा।
- (3) केन्द्रीय सरकार, यदि ऐसा करना आवश्यक समझती है तो उक्त प्रबन्ध बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड के किसी सदस्य की नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए 2 मई 1982 से पूर्व समाप्त कर सकती है।

2 प्रबन्ध बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर गठित होगा, अर्थात्—

अध्यक्ष

1. श्री ए. र. बन्धोपाध्याय,
संयुक्त सचिव, नागरिक पुनि संस्थान,
नई दिल्ली।

सदस्य

2. मुख्य निदेशक,
अनस्पति वनस्पति तेल तथा खाद्य निदेशालय,
नागरिक पुनि मन्त्रालय, नई दिल्ली।
3. लेखा नियंत्रक,
वाणिज्य और नागरिक पुनि मन्त्रालय, नई दिल्ली।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार,
खाद्य एवं नागरिक पुनि विभाग,
लखनऊ।
5. सचिव, पञ्जाब सरकार,
खाद्य एवं पुनि विभाग,
चण्डीगढ़।
6. ग्रुप एग्जीक्यूटिव (खाद्य तेल)
भारतीय राज्य व्यापार निगम,
36, जनपथ चन्द्रलोक, नई दिल्ली।
7. संयुक्त सचिव, भारत सरकार,
औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली।
8. मुख्य कार्यपालक
गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लि.,
सबजी मण्डी, दिल्ली।
9. उप मुख्य कार्यपालक,
गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लि.,
सबजी मण्डी, दिल्ली।

[का० सं० 1(6)/80-सी०यू०एम०]

चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 2nd November, 1981

S.O. 784(E)/18AA/IDRA/81.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S. O. 695(E)/18AA/IDRA/72 dated the 3rd November, 1972 (hereinafter referred to as the taking over of management order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1965), authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, to take over the

management of the industrial undertaking known as messrs. Ganesh Flour Mills Company Limited, Delhi (hereinafter referred to as the said undertaking), for a period of five years upto and inclusive of the 2nd day of November, 1977;

And, whereas by the orders of the Government of India in the Department of Industrial Development Nos S. O. 743(E), dated the 1st November, 1977, S. O. 630(E), dated 2nd November, 1979, S. O. 873(E), dated the 1st November, 1980, and S.O. 331(E), dated the 2nd May, 1981, the Central Government being of the opinion that it is expedient in the public interest has extended the period of the taking over of management Order upto and inclusive of the 2nd day of November, 1981;

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the taking over of management Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 2nd day of May, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the taking over of management Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 2nd day of May, 1982 and that the said undertaking shall be managed by the Board of Management referred to in paragraph 2 of this order subject to the following terms and conditions, namely :—

- (i) the Board of Management shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government ;
- (ii) the Board shall hold office upto. and inclusive of the 2nd day of May, 1982;
- (iii) the Central Government may terminate, without assigning any reason, the appointment of the said Board of Management, or any member thereof, earlier than the 2nd day of May 1982, if that Government considers necessary to do so.

2. The Board of Management shall consist of the following namely :—

CHAIRMAN

1. Shri A. R. Bandyopadhyay, Joint Secretary, Ministry of Civil Supplies, New Delhi.

MEMBER

2. Chief Director, Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats, Ministry of Civil Supplies, New Delhi.
3. Controller of accounts, Ministry of Commerce and Civil Supplies, New Delhi.
4. Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Food and Civil Supplies Department, Lucknow.
5. Secretary to the Government of Punjab, Food and Supplies Department, Chandigarh.
6. Group Executive (Edible Oils), State Trading Corporation of India, 36, Janpath, Chandralok, New Delhi.
7. Joint Secretary to the Government of India, Department of Industrial Development, New Delhi.
8. Chief Executive, Ganesh Flour Mills, Compay Ltd., Sabzi Mandi, Delhi.
9. Deputy Chief Executive, Ganesh Flour Mills Company Limited, Delhi.

[F. No. 4(6)/80-Cus]

C. K. MODI, Jt. Secy.